



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 1977/आसाधा 10, 1899  
No. 228] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 1977/ASADHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July 1977

**G.S.R. 431(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government after consultation with the State Governments, concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Leave) Rules 1955, namely:—

1 (1) These rules may be called the All India Services (Leave) Third Amendment Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India

2 In rule 11 of All India Services (Leave) Rules, 1955, (Hereinafter referred to as the said rules), below sub-rule (1), the following proviso shall be inserted:—

“Provided that earned leave granted as leave preparatory to retirement shall be subject to a maximum of 180 days”.

3 For rule 13 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

“13 *Commuted Leave*.—(1) Commuted Leave not exceeding half the amount of half day leave due may be granted on medical certificate to a member of the Service subject to the condition that twice the amount of such leave shall be debitable to the half pay leave due

(2) Commuted leave for a period not exceeding ninety days may be granted to a member of the Service during his entire service when such leave is availed of for course of study which is certified to be in public interest by the Government

(3) No Commuted leave may be granted under this rule unless the Government has reason to believe that the member of the Service will return to duty on its expiry"

4 For sub-rule (1) of Rule 18 of the said rules the following shall be substituted namely —

"(1) Maternity leave may be granted to a women member of the Service on full pay up to a period of 90 days from the date of its commencement."

5. For sub-rule (1) of rule 20A of the said rules, the following shall be substituted, namely —

"20A Cash equivalent of leave salary in case of deaths in service.—(1) Where a member of the Service dies while in service, the cash equivalent of the leave salary that the deceased officer would have received had he availed himself of earned leave at his credit on the date immediately following the date of death subject to a maximum of 180 days, shall be paid to his family"

6 In sub-rule (2) of rule 21, of the said rules the words, 'Under any Government or private employer' shall be omitted

7 In rule 22 of the said rules, for the opening portion beginning with the words, "All orders recalling a member" and ending with the words, "he shall be entitled ", the following shall be substituted, namely;

"A member of the Service who is recalled to duty before the expiry of the leave granted to him shall be entitled "

[No. 11019/13/77-AIS(III)]

R L AGGARWAL, Under Secy

गृह मंत्रालय

( कार्यात्मक और प्रशासनिक सुधार विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 431 (अ) —केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) तृतीय सशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 11 में (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), उपनियम (1) के नीचे निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा —

"परन्तु निवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में मजूर की गई उपार्जित छुट्टी अधिकतम 180 दिन होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“13. परिवर्तित छुट्टी—(1) बाकी अर्ध वेतन छुट्टी अवधि की आधे में अनधिक परिवर्तित छुट्टी, सेवा के सदस्य को चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर की जा सकेगी कि ऐसी छुट्टी को दुगुनी अवधि बाकी अर्धवेतन छुट्टी के नाम डाली जाएगी।

(2) नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के लिए परिवर्तित छुट्टी सेवा के सदस्य को उसकी सम्पूर्ण सेवा के दौरान तब मंजूर की जा सकेगी जब ऐसी छुट्टी किसी ऐसे पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए ली गई है जिसके बारे में सरकार यह प्रमाणित करे कि वह लोकहित में है।

(3) इन नियमों के अधीन कोई परिवर्तित छुट्टी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि सरकार के पाम यह विश्वास करने का कारण न हो कि सेवा का सदस्य उसकी समाप्ति पर कार्य पर वापस आ जाएगा।”

4. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“(1) सेवा की माहिला सदस्य को प्रसूति छुट्टी उसके प्रारम्भ की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए पूरे वेतन पर मंजूर की जा सकेगी।”

5. उक्त नियमों के नियम 20 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

“20-क. सेवा में रहते मृत्यु की वशा में छुट्टी वेतन का नगदी समतुल्य.—(1) जब सेवा के किसी सदस्य की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए तब छुट्टी वेतन का नगदी समतुल्य, जो मृतक अधिकारी तब प्राप्त करता जब वह मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी 180 दिन के अधिकतम के अधीन रहते हुए, स्वयं ले लता उसके कुटुम्ब को दिया जाएगा।”

6. उक्त नियमों के नियम 21 के उपनियम (2) में “किसी सरकारी या प्राइवेट नियोजक के अधीन” शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 22 में “सेवा के सदस्य को” शब्दों में आरम्भ होने वाले और “वह निम्नलिखित का हकदार होगा” शब्दों से समाप्त होने वाले आरम्भिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—  
“सेवा का सदस्य, जिसको उसे मजूर की गई छुट्टी की समाप्ति से पूर्व कर्तव्य पर वापस बुलाया गया है, निम्नलिखित का हकदार होगा।”

[सं० 11019 13 77—ए आई एस (III)]

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

